

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2010—माघ 2, शक 1931

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

शुद्धिपत्र

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2010

क्र.-एफ-65-07-09-तीन-608.—आयोग के आदेश क्रमांक एफ-65-7-09-तीन-1693, दिनांक 29 दिसम्बर, 2009 द्वारा नगरपालिक निगम, सागर, जिला सागर के निर्वाचन परिणामों को अधिसूचित कराया गया है. यह अधिसूचना “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, क्रमांक 634, दिनांक 29 दिसम्बर, 2009 के पृष्ठ क्रमांक 1268 (9), (10) पर मुद्रित है, इसमें त्रुटिपूर्ण मुद्रित नाम को निम्नानुसार शुद्ध रूप में पढ़ा जावे :—

स. क्र. (1)	वार्ड क्रमांक (2)	अशुद्ध मुद्रित नाम (3)	शुद्ध नाम (4)
1.	09	श्री अ. नईम	अ. नईम
2.	24	पंडित बृजकिशोर पुरोहित रामरतन	पंडित बृजकिशोर पुरोहित
3.	30	संजीव पाण्डेय रमेश चंद	संजीव पाण्डेय
4.	35	कु. रूपकुमारी विरथरिया	रूपकुमारी विरथरिया
5.	47	पुष्पा लोकनाथ चौरसिया	पुष्पा लोकनाथ पटैल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अनुपम राजन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.